

Hindi 7th



अभ्यास



मौखिक

Speaking Skills

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए—

1. इस कविता के रचनाकार का नाम बताइए।
2. 'देश के लाल' को हटीले क्यों बताया गया है?
3. 'काँमी गीत' से क्या तात्पर्य है?
4. कविता का जोश व लय में गायन कीजिए।



लिखित

Writing Skills

क. लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

धानी चुनरिया अर्थात् हरे-भरे खेत

इसी प्रकार लिखिए—

1. माँ की खातिर मर जाना अर्थात्

2. करके अपना वचन निभाना अर्थात्

3. आजादी अधिकार सभी का अर्थात्

English 7th

3. What is greater than gold?
4. What difference is seen between the 'proud man' and the 'poor man'?



GRAMMAR FUN

Prepositions

B. Fill in the blanks with suitable prepositions given in the brackets:

1. She laughed _____ me. (on/at)
2. He goes to school _____ foot. (with/on)
3. He did not listen _____ me. (to/of)
4. He came here _____ bus. (in/by)
5. I am waiting _____ my friend. (for/to)

C. Rewrite the following jumbled words in correct order:

1. may / you / bless / God!


2. God / may / you / help!

3. What / fool / a / am / I!

4. may / prosper / in / you / life.


5. you / may / long / live.

3. In the figure given below, $PQ = PS$ and $QR = SR$.




Show that :

- (a) $\triangle PQR \cong \triangle PSR$ (b) PR bisects $\angle P$ and $\angle R$.
4. In the figure given below, $AB = CD$ and $BC = AD$.




Prove that :

- (a) $\triangle BAC \cong \triangle DCA$ (b) $\angle ABC = \angle CDA$
5. Show that in an isosceles triangle, the angles opposite to the equal sides are equal.
6. Prove that the bisector of the vertical angle of an isosceles triangle bisects the base at right angles.
7. In the figure given below, $OP = OS$, $\angle P = \angle S$.



Show that :

- (a) $\triangle OPQ \cong \triangle OSR$ (b) $\angle OQP = \angle ORS$
8. In the figure given below, $BD = DC$ and $\angle B = \angle C$.



SCIENCE 7th

B. Fill in the blanks :

1. If the speed of an object moving along a straight line keeps changing, its motion is said to be _____.
2. Speed is defined as the ratio of _____ to the _____ taken.
3. The distance-time graph of vehicle moving with constant speed is a _____ line.
4. The time from one full moon to the next was called a _____.
5. One of the most well known periodic motion is that of a _____.

C. Write True or False against each statement :

1. The basic unit of time is second.
2. The time-period of a given pendulum is not constant.
3. Sundial is used for measuring distance.
4. The time from one sunrise to the next sunrise was called a day.
5. Speedometer indicates the speed in km/s.

☐
☐
☐
☐
☐

D. Short Answer Type Questions :